

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज एवं ग्रा0अभि0से0अनु0-2
संख्या- 508 / XII-2 / 2018 / 77(01) / 2007
देहरादून: दिनांक 07 सितम्बर, 2018

शुद्धि पत्र/कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय आदेश सं0 500 / XII-2 / 2018 / 77(01) / 2007, दिनांक 30.08.2018 द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता (सिविल) की क्रमांक 40-86 तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी थी। ज्येष्ठा टंकण में कतिपय त्रुटियाँ संज्ञान में आयी है। अतः टंकण त्रुटी को ठीक करके क्रमांक 40-86 तक की संशोधित अन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नानुसार प्रख्यापित की जाती है:-

वरिष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	श्रेणी	मौलिक नियुक्ति की तिथि	भर्ती का श्रोत
1	2	3	4	5	6
40	सर्वश्री श्रीपति डोभाल	18.03.1969	सामान्य	22.01.2008	पदोन्नति द्वारा
41	योगेन्द्र सिंह बिष्ट	10.03.1955	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
42	प्रमोद गंगाड़ी	12.11.1983	सामान्य	30.06.2011	सीधी भर्ती
43	धर्मवीर सिंह	01.04.1954	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
44	नितिन पाण्डेय	15.07.1977	सामान्य	30.06.2011	सीधी भर्ती
45	केशवलाल टोडरिया	09.06.1956	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
46	मुकेश कुमार भट्ट	10.07.1975	सामान्य	04.04.2013 (आयोग की संशोधित संस्तुति के अनुसार स्थान दिया गया)	सीधी भर्ती
47	गिरीश प्रसाद बड़थवाल	28.09.1957	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
48	अमित भारतीय	10.05.1985	(अनु0जाति0)	30.06.2011	सीधी भर्ती
49	गीताराम उनियाल	15.05.1961	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
50	अल्ला दिया	12.11.1977	(अ0पि0व0)	30.06.2011	सीधी भर्ती
51	रतनदेव रयाल	03.04.1954	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
52	श्रीमती मीनल गुलाटी	15.11.1976	सामान्य	30.06.2011	सीधी भर्ती
53	रामसेवक सेमवाल	10.07.1958	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
54	रमेश चन्द्र	16.09.1976	(अनु0जाति0)	04.04.2013 (आयोग की संशोधित संस्तुति के अनुसार स्थान दिया गया)	सीधी भर्ती
55	रामनिवास शाक्य	01.01.1954	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
56	मो0नासिर हसन	14.11.1974	(अ0पि0व0)	30.06.2011	सीधी भर्ती
57	विनोद कुमार देवराणी	03.01.1956	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
58	देवेन्द्र प्रसाद जोशी	18.06.1960	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा

59	आनन्द कुमार ध्यानी	12.10.1957	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
60	देवी प्रसाद ढौंडियाल	14.06.1958	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
61	राजेन्द्र चन्द्र मुनगली	05.05.1959	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
62	देवेन्द्र सिंह लिंगवाल	01.12.1959	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
63	सुरेन्द्र सिंह राणा	28.02.1957	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
64	ललित चन्द्र पाण्डे	01.09.1961	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
65	राजकुमार सिंह	07.07.1960	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
66	भूपाल सिंह मेहरा	07.07.1959	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
67	बहादुर राम आर्य	12.08.1956	(अनु०जाति०)	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
68	जीवन सिंह धर्मशक्तू	05.02.1963	(अनु० जन० जाति०)	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
69	कमलेश कुमार जोशी	15.06.1968	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
70	दिनेश कुमार	10.06.1970	(अनु०जाति०)	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
71	अनिल कुमार	27.06.1968	(अनु०जाति०)	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
72	पंकज कुमार	21.07.1970	(अनु०जाति०)	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
73	संजय भारती	03.01.1968	(अनु०जाति०)	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
74	संजय शर्मा	31.05.1964	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
75	विनोद कुमार जोशी	07.04.1970	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
76	गिरीश चन्द्र जोशी	03.03.1952	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
77	चन्दन सिंह बिष्ट	05.02.1953	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
78	बद्रीदत्त पालीवाल	20.03.1960	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
79	मुकेश कुमार शर्मा	27.07.1957	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
80	नरेन्द्र सिंह रावत	10.09.1957	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
81	भुवनेश चन्द्र बौड़ई	16.10.1961	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
82	दर्भियान सिंह बागड़ी	12.05.1969	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
83	वृजमोहन आर्य	25.03.1967	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
84	नवीन चन्द्र काण्डपाल	02.01.1960	सामान्य	08.11.2013	पदोन्नति द्वारा
85	अरविन्द मोहन गर्ग	01.09.1957	सामान्य	08.11.2013	पदोन्नति द्वारा
86	प्रकाश चन्द्र बिष्ट	01.01.1958	सामान्य	08.11.2013	पदोन्नति द्वारा


शासन के कार्यालय आदेश सं० 500/XII-2/2018/77(01)/2007, दिनांक 30.08.2018 में अंकित समस्त प्राविधान यथावत रहेंगे। कार्यालय आदेश दिनांक 30.08.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या: 508 /XII-2/2018/77(01)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी एन0आई0सी0 सेन्टर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।